



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3]
No. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

का० आ० 3(अ).—(i) सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण संक्रियाओं में, (ii) पथर तोड़ने और पथर पीसने में, (iii) भवनों के अनुरक्षण में, और (iv) धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के कतिपय प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 701(प्र०), तारीख 3 सितम्बर, 1980 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 3 सितम्बर, 1980 में उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किए गए थे। जिनमें प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक उन व्यक्तियों से आक्षेप तथा गुप्त व मांगे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 3 सितम्बर 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों की वास्तव प्राप्त आक्षेपों और मुद्दों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3613, तारीख 16 दिसम्बर, 1978 का अधिष्ठापन करते हुए, सन्तुष्टकर श्रद्धा से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपाधद अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट, और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण

सक्रियताओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुकरण और धावन पथों के मन्त्रिणी और अनुकरण में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करना है और निदेश देता है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

काम का प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें

(1)	क्षेत्र क		क्षेत्र ख-1		क्षेत्र ख-2		क्षेत्र ग		क्षेत्र घ	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अकुशल :

(1) बजरी बिछाने वाला; (2) बेलदार; (3) बोटर महिला; (4) धोकरने वाला; (5) केबट; (6) बोरी मैन, (7) चाल्टीवाला; (8) बाहक (पत्थर), (9) बाहक (पानी); (10) गाड़ीवान, (11) केयरटेकर (पुल); (12) जगीबी; (13) क्लीनर (श्रेण पथ; राख भर्त के लिए मिन्डर); (14) चौकीदार; (15) कंन्नीट (हाथ से मिलाने वाला); (16) केडसर परिवार; (17) कोयले-वाला; (18) दफादार; (19) खालक (बैल, उंट, गधा, खच्चर); (20) शंखीवाला; (21) शण्डीवाला (बैलस्ट ड्रेन); (22) द्वारपाल; (23) गैंगमैन (24) गैंग मैन (स्थायी पथ); (25) घास काटने वाला, (26) हैडलनेन, (27) जमादार; (28) जम्परमैन; (29) कमीन; (30) खलसी; (31) खलसी; (I/II; पुल, विद्युत; समुद्री; मोपला; नट; शण्डार; स्टीम रोड रोल्डर; सर्वेक्षण); (32) श्रमिक (बाग); (33) बन्ती वाला; (34) माली; (35) मजदूर; (36) मजदूर (लारी/रेलगाड़ी); (37) मुखर; (38) पैट्रोलवाला; (39) चपरासी; (40) तलाशीकर्ता; (41) सिगनल मैन; (42) शटर; (43) स्विंगर, (44) स्ट्राइकर; (45) स्ट्राइकर (मोपलागैंग), (46) शाइकण; (47) टट्टी बाय; (48) टाइल टर्नर; (49) ट्राली वाला, (50) बाल्य नियंत्रक; (51) बाल्वमैन; (52) संतरी; (53) पानीवाला (54) सफेदीवाला (55) बुडरमैन (56) बुडरमैन; (57) अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं

7.50 7.00 6.25 5.75 5.25

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) सहायक फायरमैन; (2) बाहक; (3) वेल्डरवाला; (4) भिस्ती; (5) भिस्ती (मुखक महिला); (6) नाबखाला (प्रधान); (7) श्रेकमैन; (8) शंजक, (9) शंजक (चट्टान; चट्टानी पत्थर; प्रस्तर धातु; पत्थर); (10) बेत बुनने वाला; (11) जगीबी (प्रधान); (12) चारपाई कसने वाला; (13) जाच पड़ताल कर्ता, (14) चौकीदार (प्रधान); (15) रमोइया; (16) श्रेकर; (17) क्लायरमैन; (18) दफतरी; (19) डाण्डी; (20) डालीमैन, (21) ड्रिलर, (22) ड्रिलर (छिद्र; चट्टान); (23) चालक (स्कन); (24) उन्धनक; (25) फर्णि, (26) कैरोवाला; (27) फायरमैन, (28) फायर मैन (हैंडो का भट्टा, स्टीम रोड रोल्डर); (29) फिटर (सहायक अर्ध-कुशल); (30) हाररखक; (31) घरासी (चैवर); (32) शीशेवाला; (33) ग्रीसर, (34) ग्रीसर एवं फायरमैन; (35) ग्राइडर; (36) हैकमामैन; (37) हथोड़ेवाला; (38) शलाका मोड़ने वाले का सहायक; (39) बेल्टर का सहायक; (40) सहायक (लोका श्रेण या टुक); (41) सहायक (कारोगर); (42) सहायक (आराकश), (43) जमा-दार (अर्ध-कुशल); (44) खलसी (संरक्षणात्मक); (45) कसाब; (46) की-मैन; (47) खलसी (प्रधान सर्वेक्षण; सिबेटर्स-मोपलागैंग, पर्विषक), (48) प्रधानशाला परिवार; (49) श्रमिक (चट्टान कर्मन); (50) लस्कर; (51) माझी (नाबखाला); (52) मशालची; (53) माली (प्रधान); (54) मेट, (55) मेट (लोडशायर; मङ्क; काष्ठकार; हॉजिन चालक और/या फीडर, फिटर; गैंग; खलसी; मजदूर; राज; स्थायी पथ; पम्प ड्राइवर; टर्नर); (56) मेट (भंडार) (57) मजदूर (भारी बजान; चार्जमैन; मिस्त्री; प्रधान); (58) मुकदम; (59) राति भाड़े; (60) तैलवाला; (61) पी० एम० मेट्स; (62) प्लाईटमैन, (63) पम्प परिवार; (64) खदानकार; (65) खदान प्रबालक; (66) हरकारा (डाव) (67) पण्डारवाला; (68) स्टॉकर; (69) स्टॉकर और बायलमैन, (70) सिकमी; (71) थैकर; (72) थुम्बामैन (स्विचकामी); (73) टिडल; (74) ट्रॉलीवाला (प्रधान; मोटर); (75) टोपाण; (76) तापकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला); (77) ट्रॉली जमादार; (78) विचमैन, (79) अन्य कोई प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जो कि अर्धकुशल प्रकृति के है

9.50 8.75 7.75 7.25 6.50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कुशल

(1) सहायक मिस्त्री, (2) ग्रामोच्चर वाइडर श्रेणी II और III, (3) छडे मोड़ने वाला, (4) भण्डारी, (5) लौहकार, (9) लौहकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II और III प्रधान), (7) बाँयलरमैन, (8) बाँयलरमैन (श्रेणी II और श्रेणी III), (9) बाँयलर फोरमैन श्रेणी II, (10) वेधक, (11) बारमैन, (12) ब्रिकलेयर, (13) ब्रिकलेयर (चयन श्रेणी, वर्ग II), (14) बिस्फोटक (15) काष्ठकार, (16) काष्ठकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग I और III, सहायक, बी० आई० एम० राड), (17) कैविनट बनाने वाला, (18) बेत वाला, (19) सेलोटेकम कटर मेकर, (20) चार्जमैन वर्ग II, और वर्ग III, (21) काष्ठकार (साधारण), (22) जच-पडतालकर्ता (कनिष्ठ), (23) चिक बनाने वाला, (24) चिकवाला, (25) छिलाईकार, (26) छिलाईकार एव पिसाईकार, (27) कक्रीट मिश्रण मिश्रक, (28) कक्रीट मिश्रक प्रचालक, (29) माची, (30) रसाइया (प्रधान), (31) कार निर्माता, (32) चालक, (33) चालक (माटर, यान, मोटर यान चयन श्रेणी, मोटर लारी, माटर लारी श्रेणी II, डोजल इजन, डोजल इजन श्रेणी II यात्रिक मिश्रक, रोडरोलर आई० सी० और सीमेट मिश्रक आदि रोडरालर) (34) चालक (रोड रोलर श्रेणी II), (35) चालक (ईजन स्टिर, स्टान-क्रशर, ट्रैक्टर या बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प यात्रिक, सहायक राड रालर, यात्रिक, स्टीम जेन, बुलडोजर सहित ट्रैक्टर, यात्रिक परिवहन, ईजन, स्थिर और रोड रोलर, बाँयलर परिचर, ईजन), (36) चालक (लोको या ट्रक) (37) डिस्टेंपर करने वाला (38) ड्रिलर (कुआ बेधन), (39) बिजली मिस्त्री (40) बिजली मिस्त्री (श्रेणी I, वर्ग I, वर्ग III), (41) बिजली मिस्त्री (सहायक) (42) फेब्रिकटर (43) फिटर (44) फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी II, III, वर्ग II, III, सहायक, पाईप, पाइप वर्ग II, पाइप लाइन, कुमुक के लिए छडे मोड़ना एव यात्रिक, यात्रिक और नलमाज), (45) धरामी (प्रधान) (46) ग्लेजियर (47) विस्फाटन के लिए छिद्र ड्रिलर (48) जॉयनर (46) जॉयनर (बेवल, श्रेणी II), (50) लाईनमैन (51) लाईनमैन (श्रेणी II, III, एच टी या एल टी) (52) राज (53) राज [चयन श्रेणी, श्रेणी II, और श्रेणी III, वर्ग II और III, वर्ग ख मिस्त्री, स्टोन, स्टान वर्ग II, ईट का कार्य, पत्थर का कार्य, ईट बिछाने वाला (लेयर), टाबल-फ्लोरिंग, बी० आई० एम०, मुक्कदम, प्रधान, पत्थर कत्तन, साधारण], (54) मशीनमिस्त्री, (55) यात्रिक, (56) यात्रिक (वर्ग II, वातानुकूलन, वातानुकूलन श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, राड रालर श्रेणी II, सहायक, रेडिया), (57) यात्रिक (ट्यूब वेल्), (58) राज (धरामी), (59) मिस्त्री, (60) मिस्त्री (श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी-पथ, सर्वेक्षण, सतराण, रुकर्म), (61) मिस्त्री (इस्पात नलकूप टेलीफोन), (62) राज वर्ग क (63) साचागर, (64) मौसम प्रेक्षक, (65) मोटर वाचक, (66) साचागर (ईट टाइल), (67) नावधानी, (68) प्रचालक (फिटर), (69) प्रचालक (बैचिंग मयत्र), सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शैल सपीडिल, क्रेन डेरिक, डीजल ईजन, डोजर, ड्रैगलाइन ड्रिल डम्पर उत्खनन फार्क लिफ्ट जनित्र ग्रेडर, हैक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला, लोडर, पम्प, पाइल चालन, स्त्रैपर स्त्रीनिंग सयत्र शॉबेल ट्रैक्टर, बाइन्नेटर वे-वैचर, (70) प्रचालक (वातीय औजार), (71) प्रचालक (पत्थर पीसने वाला यात्रिक), (72) रगसाज, (73) रगसाज (चयन श्रेणी श्रेणी II और III वर्ग II, सहायक, लाटर, और पालिशगर, पालिशगर, रफ), (74) रगसाज स्त्रे वर्ग II (75) प्लास्टरकर्ता, (76) प्लास्टरकर्ता (राज श्रेणी II), (77) नलसाज, (78) नलमाज (चयन श्रेणी वर्ग 2 सहायक ज्देष कनिष्ठ मिस्त्री श्रेणी II), (79) नलसाज मिस्त्री, (80) नलसाज-एव-फिटर (81) पालिशगर, (82) पालिशगर (फर्श), (83) पम्प चालक, (84) पम्प चालक (चयन श्रेणी, श्रेणी 2 और 3, वर्ग II), (85) पम्प (ईजन चालक), (86) पी० ई० चालक, (87) पम्प वाला, (88) पम्पवाला (सहायक), (89) पम्पर, (90) पालिशगर (स्त्रे सहित) श्रेणी II, (91) रतनमैन, (92) रेल गड, (93) मरम्मत करने वाला (हैट्री), (94) रिबिट कर्तक (सहायक), (95) रिपिटकार (96) रिपिटकार (क्लर्क) (97) सडक निरीक्षक श्रेणी II, (98) रेलवे प्लेटलेयर, (99) राँड वाइडर, (100) आराकश (101) आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II), (102) सेरग,

1	2	3	4	5	6
(103) संग्रह पाहल ड्राइविंग पैन्टम्स बायलर सहित; (104) स्नेहमैन; (105) तेज करने वाला या छिद्र करने वाला; (106) स्प्रेयर (एस्फाल्ट); (107) स्टेशन मास्टर; (108) सर्वेक्षक (मिल्ट); (109) पारी भारसाधक; (110) स्प्रेमैन; (111) स्प्रेमैन (रोडम); (112) संगतराश (113) संगतराश (चयन श्रेणी : श्रेणी II; वर्ग II); (114) स्टोन चिजलर; (115) स्टोन चिजलर (वर्ग 2); (116) पाषाण विस्फोटक; (117) उप-ओवरसियर (अग्रहित); (118) सर्वेक्षक; (119) सर्वेक्षक (सहायक); (120) दर्जी; (121) दर्जी (पोलिश); (122) तार स्प्रेयर; (123) तारमैन; (124) टाइलर (वर्ग 2, दोवार; फर्श; छत); (125) टाइलर (चयन श्रेणी); (126) टीनकार; (127) टीनकार (चयन श्रेणी : श्रेणी II और III; वर्ग II); (128) कलाईगर (129) ट्रेड्समैन; (130) रेलगाड़ी परीक्षक; (131) ट्रेलर्स; (132) टनर या मिलर; (133) टर्नर; (134) टायर बल्केनाइजर; (135) पॉलिशसाज; (136) पॉलिशसाज (श्रेणी II और श्रेणी III); (137) काष्ठकर्तक; (138) काष्ठ कर्तक चयन श्रेणी; (139) काष्ठ कर्तक वर्ग II; (140) वर्क सीरकार; (141) झलाईगर; (142) गैस झलाईगर; (143) झलाईगर (वर्ग II : पुल कार्य); (144) कुंप निमज्जक; (145) वायरमैन (श्रेणी II और III वर्ग I यांत्रिक; विद्युत); (146) सफेदी वाला; (147) सफेदीवाला (चयन श्रेणी; वर्ग II); (148) वायरमैन; (149) सफेदी पुताई और रंगीन पुताई वाला; (150) कार्य सहायक (151) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जो कुशल प्रकृति के हों।	12.00	11.00	10.00	9.00	8.25

अत्यधिक कुशल

(1) ग्रामरचर बाइंडर श्रेणी I; (2) लौहकार श्रेणी I और वर्ग I; (3) बायलरमैन श्रेणी I; (4) बायलरमैन/फोरमैन श्रेणी I; (5) ईट बिछाने वाला वर्ग I; (6) केवल संयोजनक श्रेणी I; (7) काष्ठकार श्रेणी I; और वर्ग I; (8) सेलोटैक्स कटर और सजावटकर्ता; (9) चार्जमैन वर्ग I; (10) जांच-पड़ताल कर्ता (ज्येष्ठ); (11) डिजाइनर; (12) ड्रेसर; (13) चालक लारी श्रेणी I; मोटर लारी श्रेणी I; मोटर यान वर्ग I और डीजल इंजन श्रेणी I; रोड रोलर श्रेणी I; पम्प श्रेणी I; पम्प वर्ग I; (14) बिजली मिस्त्री श्रेणी I और वर्ग I; (15) फिटर श्रेणी I; वर्ग I; पाइप वर्ग I (प्रधान); (16) फोरमैन (सहायक); (17) ग्राइंडर (औजार) श्रेणी I; (18) लाइनमैन श्रेणी I; (19) राज (कुशल श्रेणी I; वर्ग I); (20) मास्ट रिगर, यांत्रिक वर्ग I और वर्ग II; (21) यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्त्री; (22) यांत्रिक (डीजल श्रेणी I; रोड रोलर श्रेणी I; वातानुकूलन श्रेणी I; वर्ग I; वातानुकूलन); (23) मिस्त्री श्रेणी I; (24) मिस्त्री वातानुकूलन श्रेणी I); (25) ओवरसियर; (26) ओवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ); (27) प्रचालक (बैचिंग संयंत्र श्रेणी I; क्लैम्प शेल श्रेणी I; संपीडित श्रेणी I; क्रेन श्रेणी I, डीजल इंजन श्रेणी I; डोजर श्रेणी I; ड्रेगलाइन श्रेणी I; ड्रिल श्रेणी I; डम्पर श्रेणी I उत्खननक श्रेणी I पोर्क लिफ्ट श्रेणी I; जनित श्रेणी I; ग्रेडर श्रेणी I; लीडर श्रेणी I; फाइल ड्राइविंग श्रेणी I; पम्प श्रेणी I; स्क्रैपर श्रेणी I; स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I; शाबेल श्रेणी I; शाबेल और ड्रेगलाइन; ट्रैक्टर श्रेणी I; बाइ-ब्रेटर श्रेणी I; रिगर श्रेणी I; रिगर श्रेणी II; (28) रंगसाज (श्रेणी I; वर्ग I (स्प्रे); (29) प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग I; (30) नलसाज (प्रधान); वर्ग I; मिस्त्री श्रेणी I; (31) पालिशकर्ता (स्प्रेसहित) श्रेणी I; (32) सड़क निरीक्षक श्रेणी I; (33) आराकश वर्ग I; (34) तेज करने वाला या छिद्र करने वाला श्रेणी I; (35) साइजर; (36) संगतराश वर्ग I; (37) संगतराश श्रेणी I; (38) स्टोन चिजलर वर्ग I; (39) पाषाण मिस्त्री वर्ग I; (40) उप-ओवरसियर (अग्रहित); (41) ट्रेड्समैन वर्ग I; (42) टनर या मिलर श्रेणी I; (43) टायर बल्केनाइजर (श्रेणी I); (44) टाइलर वर्ग I; (45) टीनकार श्रेणी I और वर्ग I; (46) पॉलिशसाज श्रेणी I; (47) वॉनिशकार वर्ग I; (48) झलाईगर-एवं-फिटर और वातानुकूलन यांत्रिक; (49) झलाईगर (गैस) वर्ग I; (50) सफेदी वाला वर्ग I; (51) वायरमैन श्रेणी I वर्ग I; (52) काष्ठकर्तक वर्ग I; (53) कार्य (सहायक) श्रेणी I; (54) कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।

15.00 13.75 12.50 11.25 10.25

1	2	3	4	5	6
लिपिकीय					
(1) लेखा लिपिक; (2) लिपिक; (3) सगणक; (4) एम० सी० लिपिक (मैट्रिकुलेट, नानमैट्रिकुलेट); (5) मूर्षी (मैट्रिकुलेट, नानमैट्रिकुलेट); (6) भण्डार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नानमैट्रिकुलेट); (7) भण्डार निगमकर्ता; (8) भण्डार लिपिक; (9) भण्डारी (श्रेणी 1; 2, मैट्रिकुलेट 1; नानमैट्रिकुलेट); (10) मिलात लिपिक (11) समयपाल; (12) समयपाल (मैट्रिकुलेट, नानमैट्रिकुलेट); (13) ओजार कीपर; (14) कार्य मूर्षी; (15) कार्य मूर्षी (अधीनस्थ); (16) टेलीफोन प्रचालक; (17) टर्कर; (18) कोई अन्य प्रवर्ग, चढ़े जिस नाम से पुकारे जाए, जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों .					
	12 00	11 00	10 00	9 00	8 25

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :—

- (1) इस अधिसूचना के उपाबंध में उल्लिखित क्षेत्र क, ख-1, ख-2 और ग, ऐसे क्षेत्रों के रूप में उपाबंध में विनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थानों में समाविष्ट होंगे और इसके अन्तर्गत किसी विनिर्दिष्ट स्थान के नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र निर्माण की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान हैं और क्षेत्र घ ऐसे सभी अन्य स्थानों में समाविष्ट होंगे जो उपाबंध में उल्लिखित नहीं हैं और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का विस्तार है ।
- (2) 'घ' वर्ग क्षेत्रों में, जहाँ मजदूरी की न्यूनतम दरें क्षेत्र-वार आधार पर नियत की गई हैं और जहाँ केन्द्रीय सरकार ने नहीं भूसा या पर्वतीय भूसा या किसी अन्य विशेष भूसे का सदाय मजूर किया है, मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और घावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को, इस अधिसूचना के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त इस प्रकार नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों के 10 प्रतिशत के बराबर रकम सदन की जाएगी ।
- (3) जहाँ किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी, राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और घावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ही समुचित सरकार है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियत की गई मजदूरी से कम है, वहाँ उन क्षेत्रों की बाबत राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई मजदूरी की दरें ही इस अधिसूचना के अधीन सदाय मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जाएगी ।
- (4) (क) "अकुशल कार्य" वह कार्य है जिससे बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता का कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;
(ख) "अर्धकुशल कार्य" वह कार्य है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;
(ग) "कुशल कार्य" वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ;
(घ) "अत्याधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों के व्यावहारिक कार्य-अनुभव से अर्जित उच्चस्तर की पूर्णता और सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन की बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिर्देशों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ।
- (5) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगे ,
- (6) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरें हैं और उसमें विश्राम के साप्ताहिक दिवस के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है ।
- (7) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें, इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 70 प्रतिशत होंगी ।
- (8) मुरंग-कार्य में काम करने वाले कर्मचारियों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संबल किया जाएगा ।

उपाबंध-1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नगरों				उपनगरों का वर्ग
	क	ख-1	ख-2	ग	
1	2	3	4	5	
छ प्रदेश	हैदराबाद	—	विजयवाड़ा (बेजवाड़ा) विशाखापत्तनम (विजयापत्तनम)	अश्वीनी, अकापस्ते, अन्तपुर, बंवार (मसीवी-पत्तनम); भीमावरम, चिंगला, चित्तूर कुडाप्पह, एलूर, गुडीवडा, गुन्टाकल, गुन्तुर, काकी नाडा, कारीमनगर, खम्माम, कोथागुडम, कुरनूल, महबूबनगर, नन्ड्याल, नेलोर, निजामाबाद, धोगोल, प्रोहापुर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम तेनरली, निरपति, विजयपुरी, विजयवाड़ा (बेजवाड़ा), विशाखापत्तनम (विजयापत्तनम), विजयानगरम, वारंगल ।	
असम	—	—	गोहाटी	—	

1	2	3	4	5
बिहार	—	—	पटना, धनबाद, जमशेदपुर	भार, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो इस्पात नगर, छपरा, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर, रीनापुर, गया, हजारीबाग, बरहौली, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास ।
बण्डोलीगढ़	—	—	—	बण्डोलीगढ़
बिस्ली	दिल्ली	—	—	—
गुजरात	अहमदाबाद	—	सुरत, वडोवा (वडोवा) भावनगर राजकोट	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, भडोच, कान्ही, धारवाडी, गोधरा, गोडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, मेहसाणा, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, बेरावल ।
हरियाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिमाचल, करनाल, केथल, पानीपत, राहना, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर ।
जम्मू-कश्मीर	—	—	श्रीनगर-जम्मू	—
कर्नाटक	बंगलूर	—	हवेली, धारवाड, मैसूर	बागलकोट, बेलगांव, बेलवरी, भद्रावती, बिदर, बीजापुर, चित्रदुर्ग, धावणगीर, गडग-बेतगांगे, गुलबर्गा, हसन, होंस्येड, हुबली, धारवाड, कालार स्वर्ण क्षेत्र, माण्ड्या, मंगलूर, गयनूर, शिमोगा, तुमकूर ।
केरल	—	—	कोच्चिन, त्रिवेन्द्रम, आलपी, काली-कट (कोजीकोड)	अलेप्पी, बाडागारा, कापी कट, (कोजीकोड) कन्नूर, कयामकुलम कोटायम, पालघाट, तेली चिरी, त्रिचूर, त्रिवलोक ।
मध्य प्रदेश	—	—	इन्दौर, जबलपुर, भोपाल, भिलाई खालियर (लस्कर)	भिलाईनगर, औद्योगिक उपनगर, भोपाल, बिलासपुर, बुरहानपुर, छिबवाड़ा, बमोह, बेवास, दुर्ग, इटारसी, खण्डवा, मंदसौर, महु (छावनी), मुडुबारा, मुरैना, रायपुर, तीमन, रायगढ़, रतनाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, विदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पुणे पिम्परी-छिंद-बाडा	शालापुर, नासिक	अचलपुर, उपनगर समूह, अहमदनगर, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी भिखंडी, भुसावली, चांदा, चन्द्रपुर, धुलिया, दोन्डीघली, गोंयिया, हचक्रकरंजिया, जलगांव, जलता, कल्याण, कामठी, खासगांव, कोल्हापुर, लाटूर, मांसेगांव, नांदेड, नन्दुरबार, नासिक, नासिक मार्ग, देवलासी, पण्ढरपुर, परभनी, पिचवाडा, सांगलीमराज, सतारा, उल्हासनगर, यवतमाल, बर्घी ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासौर बिरहामपुर भुवनेश्वर, कटकपुरी, राउरकेला, मम्बलपुर ।
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी
पंजाब	—	—	अमृतसर, लुधियाना	अमृतसर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियार जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठान पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	—	—	जयपुर, अजमेर	अजमेर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरु, गंगानगर, जोधपुर, काठा, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	—	कोयम्बतूर, मयूरार, मलेम, तिरु-चिरापल्ली, (त्रिचिनापोली)	अम्बूर, अरुणकोट्टई, चिदम्बरम, कुडामोर, डिडिगुल, एरोड, गं नल्लूर कांचीपुरम, कराईगुड्ड, मयूरम, नागापट्टीनम, न

1	2	3	4	5
				पोलखी, मेटपलायम, पुडुकोट्टारी, राजपलायम, गिवाकाथी, श्रीरंगम, त्रिविलीपुलुर, ताम्बरम, नंजुरदुर्ग (नंजौर) तिडीवनम, निरुतेलवेली, निरुपुर, निम्बलामलाई, तूनीकोरिन, बालपराई, अनियाम्बडी, बेलौर, विलुपुरम, विरुदु नगर ।
उत्तर प्रदेश	--	कानपुर, लखनऊ, आगरा, हुताहाबाद, वाराणसी (बनारस) मेरठ	अयोध्या, (कोयल अलीगढ़), अमरगढ़ा, बालिया, बहयादख, बांदा, बरेली, बरेली अदाय, बुन्द-गढ़र, बंबोसी, देहरादून, ष्टाया, फैजाबाद, एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी, एवं काठगोखाम, हापुड़, हरदोई हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, जाली, जूनी, काणगंज, मथुरा, मउनाथमंजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रुहनी, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, सीतापुर ।	
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	--	आसनसोल, दुर्गापुर	वैद्यवती, बाली, बनगाव, बंकुरा, बामबेरिया, बैरकपुर, बशीरहाट, बरहामपुर, भाटपारा, बज-खज, बर्बवान, चकडाहाचमरानी, चन्दरनगर, कूचबिहार, हगलिश बाजार, हासी गहर, हुगली, चित्तपुरा, जलपाईगुडी, कमरहटी, कचरापारा, खडगपुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, तबावडीप, नैहाटी, उत्तरी दमदम, पानी-हाटी, पुर्निया, राताघाट, रिशरा, शालिपुर, सेरामपुर, मिलीगुडी, उत्तरपारा, कोटरग ।
गोवा, दमण और दीव	--	--	गोवा	मरभुगोवा

[एस० 32019(2)/79-इल्यूमी (एम इल्यूमी)]

नवीन आवेला, उपम वि

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1981

S.O. 3 (E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employments: (i) in the construction or maintenance of roads or in building operations, (ii) in stone breaking or stone crushing, (iii) in the maintenance of buildings and (iv) in the construction and maintenance of runways were published as required by clause (1) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd September, 1980 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 701 (F) dated the 3rd September, 1980 for the information and inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 3rd September, 1980.

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 3613 dated the 16th December, 1978, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, or payable to the categories of employees employed in employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways as specified in the corresponding

entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Category of work (1)	All inclusive minimum rates of wages per day									
	Area A		Area B-1		Area B-2		Area C		Area D	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

UNSKILLED :

(1) Bajri spreader (2) Beldar (3) Beater woman (4) Below man (5) Boat man (6) Borri man (7) Bucket man (8) Carrier (stone) (9) Carrier (water) (10) Cart man (11) Caretaker (bridge) (12) Chain man (13) Cleaner (crane track; cinder for ash-pit) (14) Chowkidar (15) Concrete hand mixer (16) Condenser attendant (17) Coalman (18) Daffadar (19) Driver (bullock), Camel, Donkey, (Mul:) (20) Flag man (21) Flag man (balast train) (22) Gate man (23) Gang man (24) Gang man (permanent way) (25) Grass cutter (26) Handle man (27) Jamadar (28) Jumper man (29) Kamin (30) Khalasi (31) Khalasi I/II, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Shore, Store, Steam road roller, survey) (32) Labourer (garden) (33) Lamp man (34) Mali (35) Mazdoor (36) Mazdoor (lorry/train) (37) Muchher (38) Petrol man (39) Peon (40) Searcher (41) Signal man (42) Shunter (43) Slinger (44) Striker (45) Striker (moplah gang) (46) Sweeper (47) Tatti boy (48) Tile turner (49) Trolley man (50) Valve controller (51) Valve man (52) Watch man (53) Water man (54) White washer (55) Wooder man (56) Wooder woman (57) Any other categories by whatever name called which are of an unskilled nature	7.50	7.00	6.25	5.75	5.25
---	------	------	------	------	------

SEMI SKILLED OR UNSKILLED SUPERVISORY.

(1) Assistant wire man (2) Bearer (3) Belchawala (4) Bhisti (5) Bhisti (with mushik) (6) Boat man (head) (7) Breaker man (8) Breaker (9) Breaker (rock; rock stone; stone metal; stone) (10) Canc weaver (11) Chain man (head) (12) Charpoy stringer (13) Checker (14) Chowkidar (head) (15) Cook (16) Cracker (17) Crow bar man (18) Daftri (19) Dandee (20) Dolly man (21) Driller (22) Driller (hole; rock) (23) Driver (skin) (24) Excavator (25) Farash (26) Ferio man (27) Fire man (28) Fire man (brick kiln; steam road roller) (29) Fitter (assistant semi-skilled) (30) Gate Keeper (31) Gharami (thatcher) (32) Glass man (33) Greaser (34) Greaser cum-florin (35) Grinder (36) Hackswa man (37) Hammer man (38) Helper to bar-bender (39) Helper to welder (40) Helper (loco crane or truck) (41) Helper (artisan) (42) Helper (sawyer) (43) Jamadar (semi-skilled) (44) Khalasi (structural) (45) Kasab (46) Keyman (47) Khalasi (head survey, Revotter-moplah gang; supervisor) (48) Labo atary boy (49) Labourer (o k-c itting) (50) Lascar (51) Manjhe (boatman) (52) Masalchi (53) Mali (head) (54) Mate (55) Mite (blacksmith; road, carpenter, engine driver and or feeder, filter, gang, khalasi, mazdoor, mason, permanent way, pump driver, turner) (56) Mate (store) (57) Mazdoor (heavy-weight; charge-man, mistri, head) (58) Muccadam (59) Night guard (60) Oil man (61) P.M. Mate (62) Poin's min (63) Pump attendant (64) Quarry man (65) Quarry operator (66) Runner (post-dak) (67) Store man (68) Stocker (69) Stocker and boiler man (70) Saccummy (71) Thatcher (72) Thoombaman (spade worker) (73) Tindal (74) Trolley man (head; motor) (75) Topaz, (76) Topkar (big stone breaker) (77) Trolley jamadar (78) Winch man (79) Any other categories by whatever name called which are of a semi skilled nature	9.50	8.75	7.75	7.25	6.50
--	------	------	------	------	------

SKILLED

(1) Assistant mistry (2) Armature winder grade II and III (3) Bar-bender (4) Bhandari (5) Blacksmith (6) Blacksmith (selection grade, Grade II, III, Class II & III, head) (7) Boiler man (8) Boiler man (Grade II and III) (9) Boiler foreman Grade II (10) Borer (11) Boreman (12) Brick layer (13) Bricklayer (selection Grade; Class II) (14) Blasterer (15) Carpenter (16) Carpenter (selection Grade; Grade II & III; Class I and III, Assistant; B.I.M. Road) (17) Cabinet maker (18) Caneman (19) Celo-

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>tax cutter maker (20) Chageman Class II; and Class III (21) Carpenter (Ordinary) (22) Checker (junior) (23) Chick maker (24) Chick man (25) Chipper (26) Chipper cum grinder (27) Concrete mixture mixer (28) Concrete mixer operator (29) Cobbler (30) Cook (head) (31) Coremaker (32) Driver (33) Driver (motor, vehicle, motor vehicle selection grade, motor lorry, motor lorry grade II, lorry, lorry grade II, diesel engine; diesel engine grade II, mixer mechanical, road roller I.C. and cement mixer etc., road roller) (34) Driver (road roller grade II) (35) Driver (engine static, stone crusher, tractor or bull dozer, steam road roller; water pump mechanical, assistant road roller, mechanical, steam crane, tractor with bull dozer, mechanical transport, engine, static and road roller, boiler attendant, engine) (36) Driver (loco or truck) (37) Distemperer (38) Driller (wellboring) (39) Electrician (40) Electrician (grade II, class II, class III) (41) Electrician (assistant) (42) Fabricator (43) Fitter (44) Fitter (selection grade, grade II, III, class II, assistant, pipe; pipe class II, pipe line; bending bars for reinforcement-cum-mechanic, mechanic and plumber) (45) Gharami (head) (46) Glazier (47) Hole driller for blasting (48) Joiner (49) Joiner (cable; grade II) (50) Lineman (51) Line man (grade II, III, HT or LT) (52) Mason (53) Mason (selection grade; grade II & III; class II and III, class B mistry; stone; stone class II, Brick work, Stone work; Brick-layer; Tile flooring, B.I.M.; muccadam: head, stone cutting; ordinary) (54) Machinist (55) Mechanic (56) Mechanic (class II, airconditioning, airconditioning grade II, diesel grade II, road roller grade II, assistant, radio) (57) Mechanic (tube-well) (58) Mason (gharami) (59) Mistry (60) Mistry (grade II, airconditioning grade II, permanent way, survey, santras, works) (61) Mistry (steel. tube well, telephone) (62) Mason class A (63) Moulder (64) Metrological observer (65) Meter reader (66) Moulder (brick, tile) (67) Navghani (68) Operator (fitter) (69) Operator (batching plant, cinema projector clamp shelf, compressor, crane, derrick, diesel engine, doser, dragline, drill, dumper, excavator, fork lift, generator, grader, jack hammer and pavement breaker, loader, pump, pile driving, scrapper, screaning plant, shovel, tractor, vibrator, weigh batcher) (70) Operator (pneumatic tools) (71) Operator (stone crusher mechanical) (72) Painter (73) Painter (selection grade, grade II and III, class II, assistant, lotter, & polisher, polisher, rough) (74) Painter spray class II (75) Plasterer (76) Plasterer (mason grade II) (77) Plumber (78) Plumber (selection grade, class II, assistant senior, junior mistry grade II) (79) Plumbing mistry (80) Plumber-cum-fitter (81) Polisher (82) Polisher (floor) (83) Pump driver (84) Pump driver (selection grade, grade II and III, class II) (85) Pump (engine driver) (86) P.E. driver (87) Pump man (88) Pump man (assistant) (89) Pumper (90) Polisher (with spray) grade II (91) Ratan man (92) Railway guard (93) Repairer (battery) (94) Rivet cutter (assistant) (95) Rivetter (96) Rivetter (cutter) (97) Road inspector grade II (98) Railway plate layer (99) Rod binder (100) Sawyer (101) Sawyer (selection grade class II) (102) Serang (103) Serang-pile driving Pantoons with boiler (104) Snapsman (105) Sharper or slotter (106) Sprayer (asphalt) (107) Station-master (108) Surveyor (silt) (109) Shift-in-charge (110) Sprayman (111) Sprayman (roads) (112) Stone cutter (113) Stone cutter (selection grade, grade II, class II) (114) Stone chisler (115) Stone chisler (class II) (116) Stone blasterer (117) Sub-overseer (unqualified) (118) Surveyor (119) Surveyor (assistant) (120) Tailor (121) Tailor (upholstery) (122) Tar sprayer (123) Tar man (124) Tiler (class II, wall, floor, roof) (125) Tiler (selection grade) (126) Tin smith (127) Tin smith (selection grade, grade II and III, class II) (128) Tinker (129) Tradesman (130) Train examiner (131) Trailer (132) Turner or miller (133) Turner (134) Tyre vulcaniser (135) Upholsterer (136) Upholsterer (grade II and III) (137) Wood cutter (138) Wood cutter selection grade (139) Wood cutter class II (140) Work sircar (141) Welder (142) Welder gas (143) Welder (class II, bridge work) (144) Well sinker (145) Wireman (grade II and III, class I mechanic, electrical) (146) White washer (147) White washer (selection grade, class II) (148) Wire man (149) White washing and Colour washing man (150) Work assistant (151) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature.</p>	12.00	11.00	10.00	9.00	8.25

HIGHLY SKILLED :-

- (1) Armature winder grade I (2) Blacksmith grade I and class I (3) Boiler-man grade I (4) Boiler man foreman grade I (5) Brick layer class I (6) Cable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>joiner grade I (7) Carpenter grade I and class I (8) Celotex cutter and decorator (9) Chageman class I (10) Checker (senior) (11) Designer (12) Dresser (13) Driver lorry grade I, motor lorry grade I, motor vehicle class I and diesel engine grade I, road roller grade I, pump grade I, pump class I (14) Electrician grade I and class I (15) Fitter (grade I, class I, pipe class I (head) (16) Foreman (assistant) (17) Grinder (tool) grade I. (18) Line man grade I (19) Mason (skilled grade I, class I) (20) Mast rigger mechanic class I and class II (21) Mechanic (head) or electrician (22) Mechanic (diesel grade I, road roller grade I, airconditioning grade I, class I, air conditioning) (23) Mistry grade I (24) Mistry (airconditioning grade I) (25) Overseer (26) Overseer (senior and junior) (27) Operator (batching plant grade I, clamp shell grade I, compressor grade I, crane grade I, diesel engine grade I, dozer grade I, dragline grade I, drill grade I, dumper grade I, excavator grade I, fork lift grade I, generator grade I, grader grade I, leader grade I, pile driving grade I, pump grade I, scraper grade I, screening plant grade I, shovel grade I, shovel and dragline, tractor grade I, vibrator grade I, rigger grade I, rigger grade II) (28) Painter (grade I, class I, spray) (29) Plasterer (mason class I) (30) Plumber (head, class I, mistry grade I) (31) Polisher (with spray) grade I (32) Road inspector grade I (33) Sawyer class I (34) Sharper or Slotter grade I (35) Sizer (36) Stone cutter class I (37) Stone cutter grade I (38) Stone chisler class I (39) Stone mason class I (40) Sub-overseer (qualified) (41) Trades man class I (42) Turner or miller grade I (43) Tyre vulcaniser grade I (44) Tiler class I (45) Tin smith grade I and Class I (46) Upholsterer grade I (47) Varnisher class I (48) Welder-cum-fitter and airconditioning mechanic (49) Welder (gas) class I (50) White washer class I (51) Wireman grade I, class I (52) Wood cutter class I (53) Work (assistant) grade I (54) Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature</p>	15.00	13.75	12.50	11.25	10.25

CLERICAL :-

<p>(1) Accounts clerk (2) Clerk (3) Computer (4) M.C. Clerk (matriculate, non-matriculate) (5) Munshi (matriculate, non-matriculate) (6) Store clerk (matriculate, non-matriculate) (7) Store issuer (8) Store keeper (9) Store keeper grade I, II, (matriculate II, non-matriculate) (10) Tally clerk (11) Time keeper (12) Time keeper (matriculate, non-matriculate) (13) Tool keeper (14) Work munshi (15) Work munshi (subordinate) (16) Telephone operator (17) Typist (18) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature</p>	12.00	11.00	10.00	9.00	8.25
---	-------	-------	-------	------	------

EXPLANATION:- For the purposes of this notification:-

- (1) Areas A, B-1, B-2 and C mentioned in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places specified in the Annexure as such areas and include all places within a distance of eight kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or notified area committee of a particular place and Area D shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure and to which Minimum Wages Act extends.
- (2) Employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of run ways, in D class areas where the minimum rates of wages have been fixed on area wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to the minimum rates of wages fixed by this notification, an amount equal to 10 per cent of the minimum rates of wages so fixed.
- (3) Where in any area the wages fixed under this notification are lower than the wages fixed under Minimum Wages Act by the State Government for employees in the schedule employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings and in the construction and maintenance of run ways in respect of which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.

- (4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- (b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- (c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performances of which calls for initiative and judgement;
- (d) "Highly Skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decision involved in the execution of these tasks.
5. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;
6. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for weekly day of rest;
7. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 70% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.
8. Workers employed on tunnel working shall be paid 20% extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

ANNEXURE

Name of the State/Union Territory	CLASS OF CITIES/TOWNS			
	A	B-1	B-2	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Andhra Pradesh	Hyderabad		Vijayawada (Bezawada) Visakhapatnam (Vizagapatam)	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatnam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudur, Guntakal, Guntur, Kakinada, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajahmundry, Srikakulam, Tenali, Tirupathi, Vijayapuri, Vizianagaram, Warangal.
Assam			Gauhati	
Bihar			Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Bihar Shariff, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh				Chandigarh
Delhi	Delhi			
Gujarat	Ahmedabad		Surat, Vadodra (Baroda) Bhavnagar, Rajkot	Anand, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana				Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kaithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir			Srinagar Jammu	
Karnataka	Bangalore		Hubli-Dharwar, Mysore	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere, Gadag Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala			Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut (Kozhikode)	Alleppey, Badagar, Cannanore, Changanacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh			Indore, Jabalpur, Bhopal, Bilai, Gwalior (Laskar)	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.) Morena, Murwar, Neemuch, Raigarh, Raipur, Retlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada	Solapur, Nasik	Achalpur town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	Pondicherry
Punjab	Amritsar, Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozpur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	Jaipur, Ajmer	Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	..	Coimbatore Madurai, Salem, Tiruchirapalli, (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayannallur, Cancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Nagereoil, Palayamkottai, Pollachi, Mettupalayam, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Vellupuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	..	Kanpur Lucknow	Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras), Meerut.	Aligarh (Koil Aligarh), Amroha, Balia, Bahraich, Banda, Bareilly, Basti, Badaun, Bulandshahr, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunath-Bhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	..	Asansol Durgapur	Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bansbaria, Barrackpur, Bhatpara, Basirhat, Berhampur, Budge Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chander-nagore, Cooch Behar, English Bazar, Halishahar, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu.	Goa	Marmagao.

[S. 32019/2/79-WC (MW)]

NAVIN CHAWLA, Dy. Secy.